

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी काउंसिल ने ब्रैम्पटन के पहले ऑफ-ग्रिड ऑर्गेनिक फूड शेड को मंजूरी दी

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (5 मई, 2021) – आज, सिटी काउंसिल (City Council) ने ऑफ-ग्रिड ऑर्गेनिक फूड शेड को मंजूरी दी। यह सेल्फ-सस्टेनिंग, रीजैनेरेटिव फूड सिस्टम है, जो ब्रैम्पटन में कई परिवारों के लिए भोजन पैदा करेगा। फूड शेड, इस गर्मी से शुरू करते हुए छह-माह के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, 8220 मिसिसागा रोड (8220 Mississauga Road) पर, ब्रैम्पटन फायर स्टेशन 212 (Brampton Fire Station 212) में स्थित होगा और इसी के द्वारा इसे सहयोग किया जाएगा।

ऑफ-ग्रिड ऑर्गेनिक फूड शेड, नेचर हार्मनी (Nature Harmony) के द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह एक जीरो-एनर्जी वाला ग्रीनहाउस स्ट्रक्चर है, जो फूड शेड से सब्जियां आदि उगाएगा और [2021 के बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम \(2021 Backyard Garden Program\)](#) के हिस्से के तौर पर, ब्रैम्पटन में परिवारों को भोजन करवाने के लिए रीजैनेरेशन आउटरीच कम्युनिटी (Regeneration Outreach Community) को दान देगा।

इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में इसका अपना ईकोसिस्टम शामिल है, जिसमें खाने योग्य ऑर्गेनिक फल और सब्जियां उगाने तथा खाने योग्य मछली पालन के लिए, ऑटोमेटिड मिट्टी, हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स सिस्टमों का प्रयोग किया जाता है। यह शेड जीरो-वेस्ट और कार्बन नेगेटिव है, जो सोलर और रिन्युएबल एनर्जी से चलता है। यह तीव्र सर्दियों को सहन कर सकता है।

स्थिर इनडोर फार्म में, हर उम्र के लोगों को इंटरैक्टिव प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, शिक्षात्मक गतिविधियों और प्रयोगों तथा सभी जरूरी सामग्रियों के एक सुइट वाली टैबलेट भी शामिल है।

ब्रैम्पटन का कम्युनिटी गार्डन्स प्रोग्राम (Community Gardens Program), [ब्रैम्पटन गो ग्रीन एन्वायरनमेंटल मास्टर प्लान \(Brampton Grow Green Environmental Master Plan\)](#) के लक्ष्यों का विस्तार करता है, जिसने सिटी के लिए अवसर के तौर पर शहरी खेती का संदर्भ दिया है। ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज (Brampton Fire and Emergency Services) ने भी 2020 में, बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम (Backyard Garden Program) में हिस्सा लिया था, जहां टीम ने बड़ी मात्रा में कम्युनिटी में सब्जियां उगाई थीं और इनके दान को सुविधाजनक बनाने में मदद की थी।

### हवाले

“ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल ने ब्रैम्पटन के पहले ऑफ-ग्रिड ऑर्गेनिक फूड शेड को मंजूरी दी है, जो फायर स्टेशन 212 में स्थित होगा और इस जगह पर ब्रैम्पटन फायर के स्टाफ के द्वारा इसमें सहयोग किया जाएगा। हमें ब्रैम्पटन में स्थिरता के नए मॉडल स्थापित करने पर गर्व है, खास करके वे, जो सीधा हमारे निवासियों की और 2050 तक जी.एच.जी. को 80% तक कम करने के हमारे सफर में मदद करते हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन एक ग्रीन सिटी है। हम हमारे निवासियों के लिए भोजन संबंधी सुरक्षा और सिक्योरिटी के लिए इनोवेटिव समाधानों का स्वागत करते हैं। ऑफ-ग्रिड ऑर्गेनिक फूड शेड, अपनी खुद की ऊर्जा पैदा करता है, ज़ीरो-वेस्ट सिस्टम कायम रखता है, बारिश के पानी को एकत्र करता है और कार्बन को ग्रहण करता है तथा ताज़ा ऑक्सीजन रिलीज करता है। यह शहरी खेती में एक बड़ी उपलब्धि है और हम इसके नेतृत्व में मदद करने के लिए उत्साहित हैं।”

- *रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“ऑफ-ग्रिड ऑर्गेनिक फूड शेड, ब्रैम्पटन के बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर कोविड-19 के दौरान कई निवासियों की मदद करेगा। यह सेल्फ-सस्टेनिंग, ऑर्गेनिक फूड-उगाने वाला मॉडल, लोकल तौर पर फूड उगाने की जरूरत, मूल्य और साधनों को दर्शाता है और हमें अधिक स्थिर भविष्य के लिए टूल्स और जानकारी के साथ सशक्त बनाता है।”

- *डग विलैन्स (Doug Whillans), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 2 और 6; चेयर, बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सिटी का स्टाफ, ब्रैम्पटन में फूड संबंधी सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए अवसरों हेतु प्रतिबद्ध है। ब्रैम्पटन फायर स्टेशन 212 में स्टाफ को ऑफ-ग्रिड ऑर्गेनिक फूड शेड में सहयोग करने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो ब्रैम्पटन के स्थिरता संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा।”

- *डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“नेचर हार्मनी एक गैर-लाभ संगठन है, जो धरती पर प्रभावी प्रबंधन का प्रचार करने, इसे सुविधाजनक और सशक्त बनाने पर केंद्रित है। ब्रैम्पटन बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम और ब्रैम्पटन फायर के साथ साझेदारी में, ऑफ-ग्रिड ऑर्गेनिक फूड शेड प्रोजेक्ट, सिटी, कम्युनिटीज और व्यक्तियों को कुदरत के साथ रिश्ते के बारे में दुबारा सोचने और हमारे मौजूदा उपभोक्तावाद मॉडल्स के लिए प्रेरित करके, स्थिर और पुनरुत्पादन की पहलकदमियों का प्रचार करता है।”

- *फिल फंग (Phil Fung), एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नेचर हार्मनी*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

#### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)